

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2019/ वैशाख 10, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 30
No. 81]	DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2019/ VAISAKHA 10, 1941	[N.C.T.D. No. 30

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2019

सं.फा. 6(9)/2014-15/डीआईपी/स्था./2207.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 मई, 1968 की अधिसूचना सं. फा.2(9)/68-सेवाएं (सी) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'क्षेत्र प्रचार अधिकारी' के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को क्षेत्र प्रचार अधिकारी भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	क्षेत्र प्रचार अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	1* (एक) (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य सिविल सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-6 (35400-112400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टीप:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	1. (क) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि। (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/विज्ञापन एवं जनसंपर्क में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/जनसंपर्क मीडिया में डिग्री। तथा 2. किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक निकाय, समाचार एजेंसी/समाचार चैनल/भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचार पत्र में जन संपर्क/बाह्य प्रचार/विज्ञापन/गायन एवं नाट्य आयोजन/फिल्म शो गतिविधियों के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। तथा 3. किसी मान्यप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा तक

		<p>हिन्दी भाषा का अध्ययन।</p> <p>टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।	<p>: सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टीप:- पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा</p> <p>ख. कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश किया जाना है।	: लागू नहीं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>: समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (जनसंपर्क)/निदेशक (सूचना एवं प्रचार)– अध्यक्ष 2. विशेष सचिव (सेवाएं)– सदस्य 3. विशेष निदेशक (डीआईपी)– सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार मिश्रा, निदेशक (सूचना एवं प्रचार)

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY

NOTIFICATION

Delhi, the 29th April, 2019

No.F.6(9)/2014-15/DIP/Estt/2207.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.27/59-HIM(i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F.2(9)/68-Services (C) dated-the 28th May, 1968 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules for the post of '**Field Publicity Officer**' in the Directorate of Information and Publicity, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Field Publicity Officer Recruitment Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in pay matrix:-** The number of said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit qualification, etc.:-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications:-** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Field Publicity Officer.	1 (One) * (2019) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7
Not exceeding 30 years (Relaxable for government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the	1. (a) (I) Degree from a recognised University/Institute; (II) Diploma/Post Graduate Diploma in Journalism/Mass Communication/Advertising and Public Relations from a recognised University/Institution; or (b) Degree in Journalism/Mass Communication/Mass Media from a

age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	<p>recognised University/Institution.</p> <p>AND</p> <p>2. Two years' experience in the field of Public Relations/Outdoor Publicity/Advertisement/Organization of Song and Drama/Films Shows activities in a Government Department/Public Sector Undertaking/Autonomous or Statutory Body/News Agency/News Channel/Newspaper registered with the Registrar of News Paper of India.</p> <p>AND</p> <p>3. Must have studied Hindi language upto 10th Class from a recognised Board/University.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
---	--

Whether Age and Educational Qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods:
8	9	10
Not applicable.	Two years.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation (including Short Term Contract) basis from officers of Central Government/State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Bodies:</p> <p>(a) (I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; AND</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of: <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary (PR)/Director (I&P)-Chairperson. 2. Special Secretary (Services)-Member. 3. Special Director (DIP)-Member. 	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SANDEEP KUMAR MISHRA, Director (I&P)